

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 18.09.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राम सूरत पुत्र राम अक्षयवर नि० अमवा माफी थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 353 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त पुत्तन पुत्र प्रहलाद नाथ नि० अहमदवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को थाना खरगूपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 180 / 20, धारा 323.354ख भादवि० व 7 / 8 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त ने थाना खरगूपुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ शौच के दौरान छेड़छाड़ किया था, जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के भाई खरचू पुत्र नन्हके साहू नि० अहमदवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर में उक्त आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें खरगूपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

थाना नवाबगंज का टॉप-10 अपराधी, अवैध तमंचे के साथ

गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. चन्दन गौतम पुत्र चन्द्र प्रकाश नि० कटरा भोगचन्द थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 399 / 20, धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.09.2020 को थाना नवाबगंज के उ०नि० रंजीत पासवान मय पुलिस टीम के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को परसुरामपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया । उक्त अभियुक्त थाना नवाबगंज के टॉप-10 अपराधियों में से एक है । अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ०नि० राम प्रकाश ।
02. का० अनिल यादव ।
03. का० रंजीत पासवान ।
04. का० विपिन गौतम ।
05. का० प्रदीप कनौजिया ।